

Pioneer Public school (2021-2022)

Date-11/05/2021

*Day- Tuesday

*Class- 4th

*Sub- Maths

Ch-5

Ex.-5.1 Q.no.1 and 2 do in your book.

*Subject- hindi

Lesson- 4(किसने पकाई, किसने खाई) read it

*Sub- English grammer

Lesson- 1 watch the video carefully.

<https://youtu.be/6XIJfjHxPkw>

*Sub- EVS

Ch - 03 fillups fill in the book

Example : Subtract five lakh ninety-five thousand seven hundred ninety eight from seven lakh five thousand five hundred twenty-four.

Solution :

L	TTh	Th	H	T	O
7	0	5	5	2	4
-	5	9	5	7	9
1	0	9	7	2	6



Ans.

11/05/2021
Tuesday

CLASS → IV
Sub → Maths
Exercise-5.1

(do in book by yourself)

1. Subtract :

(a)

Th	H	T	O
5	7	8	8
-	4	5	0
1	2	8	2

(b)

TTh	Th	H	T	O
8	9	8	8	5
-	5	5	4	4
3	4	4	4	2

(c)

TTh	Th	H	T	O
7	6	5	4	4
-	5	2	3	1
2	4	2	3	4

(d)

TTh	Th	H	T	O
5	4	3	6	2
-	2	2	3	4

(e)

TTh	Th	H	T	O
9	1	5	2	8
-	6	1	3	1

(f)

TTh	Th	H	T	O
9	5	4	6	9
-	3	1	2	5

2. Find :

(a)

L	TTh	Th	H	T	O
9	7	8	9	5	4
-	5	1	5	4	3

(b)

L	TTh	Th	H	T	O
5	5	4	4	3	3
-	2	2	1	1	0

(c)

L	TTh	Th	H	T	O
7	8	9	9	9	6
-	2	1	2	2	9

(d)

L	TTh	Th	H	T	O
6	5	4	3	2	1
-	3	2	1	2	1

(e)

L	TTh	Th	H	T	O
8	7	6	6	5	7
-	6	4	3	3	2

(f)

L	TTh	Th	H	T	O
6	4	3	1	0	4
-	4	1	0	0	4

गाना एक सुनाओ,
हीरा लो अनमोल।

रोटी ने बात सुनी, तो रुक गई। सोचा—'लोमड़ी रानी कितनी मीठी बातें करती है! क्यों न इसे गाना सुनाकर हीरा ले लूँ! फिर कहीं बैठकर आराम करूँगी।'

लोमड़ी धीरे-धीरे पास आने लगी। रोटी ने मुँह खोला—

बुढ़िया ने पकाया,
बूढ़े को बुलाया,
मुझको खा न पाया,
कुत्ते ने बुलाया,
मुझको पकड़ न पाया,
भालू ने बुलाया,
खाली हाथ भगाया,
लोमड़ी ने बुलाया,
मीठा गाना गा-या-आ...

लोमड़ी ने एक झपट्टा मारा और आधी रोटी मुँह में डाल ली। रोटी न तो फूली रही, न गोल रही और न रही मोटी। फुस्स हो गई। लोमड़ी ने धीरे-धीरे पूरी रोटी खा ली। फिर जीभ से मुँह साफ़ करती हुई जंगल में चली गई।





Tuesday 11/5/21 CLASS - IV
Sub - Hindi

किसने पकाई, किसने खाई

Note :- Read

पाठ परिचय (Introduction)

प्रस्तुत पाठ में रोटी को पात्र बनाया गया है। इसमें रोटी अन्य विभिन्न पात्रों से मानव सदृश बातें करती है, जो अत्यंत रोचक हैं। आइए, पढ़कर आनंद उठाएँ-

किसी गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। एक दिन उसने एक गोल-गोल रोटी पकाई। रोटी छोटी और मोटी थी। बुढ़िया ने वह रोटी तवे से उतारी। उसे थाली में डाला। रोटी गोल थी। वह ज़ोर से उछली और रसोई के बाहर दौड़ पड़ी।

बुढ़िया चिल्लाई, "पकड़ो! रोटी को पकड़ो!" बूढ़ा दौड़ा। वह बोला, "चिल्लाओ मत! इसे मैं पकड़कर खाऊँगा।" परंतु रोटी और तेज़ भागने लगी। बूढ़ा कमज़ोर था। कहाँ तक भागता! वह लौट आया। उधर रोटी भागती-भागती गली में जा पहुँची।



will
not
may
asal



Jimmy's Corner

- * Giraffes have only one row of teeth.
- * They have front teeth only on their lower jaw.

RECAP

SHOTS

- * We should brush our teeth regularly, we should rinse our mouth after eating anything.
- * We should take bath daily with soap.
- * Regular exercise keeps us fit and healthy.
- * We should take proper care of our eyes, ears, nose, tongue and skin.
- * For being healthy, our daily routine should be fixed i.e. sleeping and rising time.
- * Always remember that a 'healthy mind lives in a healthy body.'

body.
ettle
kin.
and
n in
cut,
ptic
ch.

11-05-21



Work Out

Tuesday

A. Fill in the blanks :

1. We should brush our teeth twice a day.
2. We should wash our hands before eating.
3. We should never open bottles with our teeth.